


विविध बैंक प्रकरण सं० 15/2018(RCMS : 2018/00017) एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर बनाम 1. जोरा सिंह पुत्र जगराज सिंह 2. जगराज सिंह पुत्र करनैल सिंह 3. दर्शन सिंह पुत्र जगराज सिंह निवासी मकान नं 118, ग्राम पालीवाला, 117 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 4. कुलदीप कौर पत्नि जोरा सिंह निवासी मकान नं 135, 17 एस.टी.बी, मुख्य ग्राम पालीवाला, तहसील सूरतगढ

26.06.2018



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री जलविन्द्र सिंह भंगू के अधिकार पत्र पर श्री देवेन्द्र सिंह संधू, अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2016, एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पूर्व में नाम एयू फाईनेसर्स (इंडिया) लि. था का पंजीकरण प्रमाणपत्र, भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के लाईसेंस संख्या एमयूएम 126 प्रमाण पत्र की प्रतियां दिनांक 25.06.2018 को पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई है।

प्रार्थी एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के अभिभाषक श्री देवेन्द्र सिंह संधू का कथन था कि उक्त बैंक का पूर्व में नाम एयू फाईनेसर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया। उक्त कम्पनी का नाम अधिसूचना के क्रमांक 40 पर दर्ज है और अब उक्त एयू फाईनेसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड कर दिया गया है, जिसके परिणाम के रूप में प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत है। भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अनुसार एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड को बैंक की अनुसूची में शामिल कर लिया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड को बैंक का करोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया है, जो शामिल पत्रावली की गई है। उक्त प्रार्थी बैंक एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड द्वारा ऋणियों जोरा सिंह, जगराज सिंह, दर्शन सिंह एवं कुलदीप कौर को दिनांक 05.03.2013 को 3,50,000/-रुपये (अखरे रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 02 जगराज सिंह अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) प्रार्थी

श्रीगंगानगर  
जिला श्रीगंगानगर

बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 01.11.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 06.06.2017 को कुल 2,30,437/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.06.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्च जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी जगराज सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का पूर्व में नाम एयू फाइनेंशर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत क्रम संख्या 40 पर वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है और अब MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVERNMENT OF INDIA) के Registrar of Companies, Jaipur द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी सर्टिफिकेट के अनुसार उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस सं. एमयूएम :126 दिनांक 20.12.2016 प्रदान किया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के निर्देश दिये हैं। इसलिए प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण (ऋणियों) के विरुद्ध कार्रवाई करने की अधिकारिता है।

  
जिला माजस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उक्त प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण जोर सिंह, जगराज सिंह, दर्शन सिंह एवं कुलदीप कौर दिनांक 05.03.2013 को ऋण सुविधा के रूप में 3,50,000/- (अखरे रूपये तीन लाख पचास हजार रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी जगराज सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 01.11.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम से दिनांक 06.06.2017 को कुल 2,30,437/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चें अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.06.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चें जमा करवाने का दिया गया था। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई ऋणी जगराज सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी जगराज सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त सम्पत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.06.2017 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 09.06.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण जोर सिंह, जगराज सिंह, दर्शन सिंह एवं कुलदीप कौर को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे शामिल है। जिसकी पुष्टि संलग्न पोस्ट ऑफिस की एडी रसीद से होती है, जिन पर अप्रार्थी संख्या 01 जोरा सिंह के स्वयं


श्रीगंगानगर  
जिला नगरपालिका  
श्रीगंगानगर

-4- विविध बैंक प्रकरण सं० 15/2018(RCMS: 2018/00017)

के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के नोटिस पंजाब केसरी एवं दी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में दिनांक 14.09.2017 को प्रकाशित किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं जमानतदार ने धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी ऋण की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा को प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2018 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई ऋणी जगराज सिंह अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 14, ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 705.67 वर्ग गज) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रोषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ज्ञानाराम)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर